

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2021 — आश्विन 14, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2021/1/5. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल ईन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2022 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संबत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1943	बुधवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	01 मार्च	फाल्गुन 10, 1943	मंगलवार
3.	होली	एक	18 मार्च	फाल्गुन 27, 1943	शुक्रवार
4.	बैंको की वार्षिक लेखाबंदी	एक	01 अप्रैल	चैत्र 11, 1944	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	महावीर जयंती	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1944	गुरुवार
6.	गुड फ्राइडे	एक	15 अप्रैल	चैत्र 25, 1944	शुक्रवार
7.	ईद-उल-फितर	एक	03 मई	वैशाख 13, 1944	मंगलवार
8.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	16 मई	वैशाख 26, 1944	सोमवार
9.	मोहर्म्म	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1944	मंगलवार
10.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1944	सोमवार
11.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	19 अगस्त	श्रावण 28, 1944	शुक्रवार
12.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	05 अक्टूबर	आश्विन 13, 1944	बुधवार
13.	दीवाली (दीपावली)	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 02, 1944	सोमवार
14.	गुरूनानक जन्म दिवस	एक	08 नवम्बर	कार्तिक 17, 1944	मंगलवार

टीप :- सरल क्रमांक-4 में उल्लेखित अवकाश केवल बैंकों एवं कोषालयों हेतु घोषित है.

(2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	10 जुलाई	आषाढ 19, 1944	रविवार
2.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1944	रविवार
3.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	09 अक्टूबर	आश्विन 17, 1944	रविवार
4.	क्रिसमस दिवस	एक	25 दिसंबर	पौष 04, 1944	रविवार

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2021/1/5. — राज्य शासन एतद्द्वारा वर्ष 2022 के लिए, छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु निम्नलिखित सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है :-

(अ) सामान्य अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1943	बुधवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	01 मार्च	फाल्गुन 10, 1943	मंगलवार
3.	होली	एक	18 मार्च	फाल्गुन 27, 1943	शुक्रवार
4.	भक्त माता कर्मा जयंती	एक	28 मार्च	चैत्र 07, 1944	सोमवार
5.	डॉ. अंबेडकर जयंती	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1944	गुरुवार
6.	महावीर जयंती	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1944	गुरुवार
7.	गुड फ्राइडे	एक	15 अप्रैल	चैत्र 25, 1944	शुक्रवार
8.	ईद-उल-फितर	एक	03 मई	वैशाख 13, 1944	मंगलवार
9.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	16 मई	वैशाख 26, 1944	सोमवार
10.	कबीर जयंती	एक	14 जून	ज्येष्ठ 24, 1944	मंगलवार
11.	हरेली	एक	28 जुलाई	श्रावण 06, 1944	गुरुवार
12.	विश्व आदिवासी दिवस	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1944	मंगलवार
13.	मोहर्रम	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1944	मंगलवार
14.	रक्षाबंधन	एक	11 अगस्त	श्रावण 20, 1944	गुरुवार
15.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1944	सोमवार
16.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	19 अगस्त	श्रावण 28, 1944	शुक्रवार
17.	हरितालिका तीज (पर्व)	एक	30 अगस्त	भाद्र 08, 1944	मंगलवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	05 अक्टूबर	आश्विन 13, 1944	बुधवार
19.	दीवाली (दीपावली)	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 02, 1944	सोमवार
20.	गुरुनानक जन्म दिवस	एक	08 नवंबर	कार्तिक 17, 1944	मंगलवार

टीप :-

- (1) “निगोशिएबल ईस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26)” की धारा 25 के अंतर्गत कोषालय एवं उप कोषालय हेतु सार्वजनिक अवकाश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-10-2021 द्वारा घोषित किए गए हैं.
- (2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये है :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रामनवमी	एक	10 अप्रैल	चैत्र 20, 1944	रविवार
2.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	10 जुलाई	आषाढ़ 19, 1944	रविवार
3.	महात्मा गांधी जन्म दिवस	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1944	रविवार
4.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	09 अक्टूबर	आश्विन 17, 1944	रविवार
5.	छठ पूजा	एक	30 अक्टूबर	कार्तिक 08, 1944	रविवार
6.	गुरुघासी दास जयंती	एक	18 दिसम्बर	अग्रहायण 27, 1944	रविवार
7.	क्रिसमस दिवस	एक	25 दिसम्बर	पौष 04, 1944	रविवार

(ब) ऐच्छिक अवकाश

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नववर्ष दिवस	एक	01 जनवरी	पौष 11, 1943	शनिवार
2.	माता सावित्री बाई फुले जयंती	एक	03 जनवरी	पौष 13, 1943	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	लुई ब्रेल का जन्म दिवस	एक	04 जनवरी	पौष 14, 1943	मंगलवार
4.	राजिम भक्तिन माता जयंती	एक	07 जनवरी	पौष 17, 1943	शुक्रवार
5.	विश्व हिन्दी दिवस	एक	10 जनवरी	पौष 20, 1943	सोमवार
6.	मकर संक्रांति/पोंगल	एक	14 जनवरी	पौष 24, 1943	शुक्रवार
7.	छेरछेरा/माता शाकांभरी जयंती	एक	17 जनवरी	पौष 27, 1943	सोमवार
8.	शहीद गैँदसिंह का शहादत दिवस	एक	20 जनवरी	पौष 30, 1943	गुरुवार
9.	बसंत पंचमी/माँ परमेश्वरी जयंती	एक	05 फरवरी	माघ 16, 1943	शनिवार
10.	हजरत अली का जन्म दिवस	एक	15 फरवरी	माघ 26, 1943	मंगलवार
11.	राजिम मेला माघ पूर्णिमा/संत रविदास जन्म दिवस	एक	16 फरवरी	माघ 27, 1943	बुधवार
12.	छत्रपति शिवाजी जयंती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1943	शनिवार
13.	महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती	एक	26 फरवरी	फाल्गुन 07, 1943	शनिवार
14.	होली (होलिका दहन)	एक	17 मार्च	फाल्गुन 26, 1943	गुरुवार
15.	शब-ए-बारात	एक	18 मार्च	फाल्गुन 27, 1943	शुक्रवार
16.	गुड़ी पड़वा/चैतीचांद	एक	02 अप्रैल	चैत्र 12, 1944	शनिवार
17.	गुहा निषादराज जयंती	एक	06 अप्रैल	चैत्र 16, 1944	बुधवार
18.	वैशाखी	एक	14 अप्रैल	चैत्र 24, 1944	गुरुवार
19.	हाटकेश्वर जयंती	एक	15 अप्रैल	चैत्र 25, 1944	शुक्रवार
20.	धरती पूजा (खद्दी पर्व)	एक	16 अप्रैल	चैत्र 26, 1944	शनिवार
21.	श्रीमद् वल्लभाचार्य जयंती	एक	26 अप्रैल	वैशाख 06, 1944	मंगलवार
22.	सेन जयंती	एक	27 अप्रैल	वैशाख 07, 1944	बुधवार
23.	जमात-उल-विदा	एक	29 अप्रैल	वैशाख 09, 1944	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	परशुराम जयंती	एक	03 मई	वैशाख 13, 1944	मंगलवार
25.	शंकराचार्य जयंती	एक	06 मई	वैशाख 16, 1944	शुक्रवार
26.	छत्रसाल जयंती/महाराणा प्रताप जयंती	एक	02 जून	ज्येष्ठ 12, 1944	गुरुवार
27.	महेश नवमी (ज्येष्ठ शुक्ल)	एक	08 जून	ज्येष्ठ 18, 1944	बुधवार
28.	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	एक	24 जून	आषाढ 03, 1944	शुक्रवार
29.	रथयात्रा	एक	01 जुलाई	आषाढ 10, 1944	शुक्रवार
30.	डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म दिवस	एक	19 जुलाई	आषाढ 28, 1944	मंगलवार
31.	नाग पंचमी	एक	02 अगस्त	श्रावण 11, 1944	मंगलवार
32.	पारसी नववर्ष	एक	16 अगस्त	श्रावण 25, 1944	मंगलवार
33.	हरछठ	एक	17 अगस्त	श्रावण 26, 1944	बुधवार
34.	पोला	एक	27 अगस्त	भाद्रपद 05, 1944	शनिवार
35.	गणेश चतुर्थी	एक	31 अगस्त	भाद्रपद 09, 1944	बुधवार
36.	नवाखाई	एक	03 सितंबर	भाद्रपद 12, 1944	शनिवार
37.	ढोल ग्यारस	एक	06 सितंबर	भाद्रपद 15, 1944	मंगलवार
38.	ओणम	एक	08 सितंबर	भाद्रपद 17, 1944	गुरुवार
39.	अनंत चतुर्दशी	एक	09 सितंबर	भाद्रपद 18, 1944	शुक्रवार
40.	विश्वकर्मा जयंती	एक	17 सितंबर	भाद्रपद 26, 1944	शनिवार
41.	प्राणनाथ जयंती	एक	24 सितंबर	आश्विन 02, 1944	शनिवार
42.	अग्रसेन जयंती	एक	26 सितंबर	आश्विन 04, 1944	सोमवार
43.	दशहरा (महाअष्टमी)	एक	03 अक्टूबर	आश्विन 11, 1944	सोमवार
44.	दशहरा (महानवमी)	एक	04 अक्टूबर	आश्विन 12, 1944	मंगलवार
45.	करवाचौथ व्रत	एक	13 अक्टूबर	आश्विन 21, 1944	गुरुवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	एक	25 अक्टूबर	कार्तिक 03, 1944	मंगलवार
47.	भाई दूज	एक	26 अक्टूबर	कार्तिक 04, 1944	बुधवार
48.	भगवान सहस्रबाहु जयंती	एक	31 अक्टूबर	कार्तिक 09, 1944	सोमवार
49.	नामदेव जयंती	एक	04 नवंबर	कार्तिक 13, 1944	शुक्रवार
50.	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	एक	16 नवंबर	कार्तिक 25, 1944	बुधवार
51.	गुरू तेग बहादुर का शहीदी दिवस	एक	24 नवंबर	अग्रहायण 03, 1944	गुरुवार
52.	दत्तात्रेय जयंती	एक	07 दिसंबर	अग्रहायण 16, 1944	बुधवार
53.	शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस	एक	10 दिसंबर	अग्रहायण 19, 1944	शनिवार
54.	गुरू गोविन्द सिंह का जन्म दिवस	एक	29 दिसंबर	पौष 08, 1944	गुरुवार

टीप :-

- (1) प्रत्येक शासकीय सेवक को उपरोक्त ऐच्छिक अवकाशों में से उसकी इच्छानुसार केवल 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी.
- (2) निम्नलिखित ऐच्छिक अवकाशों के दिन रविवार होने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया है :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गुरू गोविन्द सिंह का जन्म दिवस	एक	09 जनवरी	पौष 19, 1943	रविवार
2.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयंती	एक	23 जनवरी	माघ 03, 1943	रविवार
3.	वीरांगना अवंति बाई का बलिदान दिवस	एक	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1943	रविवार
4.	भाई-दूज	एक	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1943	रविवार
5.	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	एक	25 सितम्बर	आश्विन 03, 1944	रविवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	महर्षि वाल्मिकी जयंती/ महाराजा अजमोद देव जयंती/टिकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव/कुवांर पूर्णिमा “करम परब” (त्यौहार)	एक	09 अक्टूबर	आश्विन 17, 1944	रविवार
7.	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	23 अक्टूबर	कार्तिक 01, 1944	रविवार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.